

EX. 121019C 1170

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 316] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 1970/भाद्र 11, 1892
No. 316] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 1970/BHADRA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह छलन संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
ORDERS

New Delhi, the 31st August 1970

S.O. 2875.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	Indian News Review No. 1141	205.35 M	Films Division, Govt. of India 24-Peddar Road	Bombay-26.	Film dealing with news & current events.

[No. F. 28/1/70-FP App. 1495.]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त 1970

एस० ओ० 2875.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792 तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए निदेशों के अनुसार केन्द्रीय, सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है।
----------	--------------	-------------------	--------------	-----------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--|----------------------------------|--|
| 1. | भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1141 | 205.35 मीटर | फिल्मज प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26 | समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म | |
|----|-----------------------------------|-------------|--|----------------------------------|--|

[संख्या फ० 28/1/70-एफ० पी० परिशिष्ट 1495.]

S.O. 2876.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December 1966 the Central Government after considering the recommendations of the film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in Column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	Indian News Review No. 1141 (Western Edition)	283.35	M. Films Division, Govt. of India 24-Peddar Road Bombay-26.		Film dealing with news and current events (For release in Western States i.e., Gujarat Maharashtra & Goa Daman & Diu).

[No. F. 28/1/70-FP App. 1496.]

K. K. KHAN, Under Secy.

एस०ओ० 2876.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस०ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनी के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिश पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
----------	--------------	-------------------	--------------	-----------------	--

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- | | | | | |
|----|---|-------------|---|--|
| 1. | भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1141 (पश्चिमी संस्करण) | 283.35 मीटर | फिल्मज प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-26 | समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात महाराष्ट्र तथा गोवा दमन और दीवों में प्रकाशित करने के लिए) |
|----|---|-------------|---|--|

[संख्या फ० 28/1/70-एफ० पी० परिशिष्ट 1496.]

क० क० खान, अवर सचिव ।

